

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2014—वैशाख 5, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्र. एफ-35-61-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10, सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आज दिनांक 25 अप्रैल, 2014 से तीन माह की अवधि के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

एन.टी.पी.सी. के विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, विंध्यनगर, जिला सिंगरौली के अधीन कार्यरत समस्त कार्यक्षेत्र, मेंरी गो राउन्ड (एम.जी.आर.) कार्यक्षेत्र एवं डाइक क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक ऑपरेटिव (प्रचालित) तथा अनुसचिवीय कर्मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्र. एफ. 35-61-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 25th April 2014

F. No. 35-61-2005-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from Today i.e., 25th April, 2014 for a period of three months.

SCHEDULE

“Scientific, technical, Executive, Operative, Construction, Erection and Ministerial, personnel connected with-
All Working Areas, Merry, Go Round Area and Ash Dyke Area of N.T.P.C. Vindhychal Super
Thermal Power Station, Vindhya Nagar, Distt. Singrauli”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.